

SHL/SEC/2023

The Bombay Stock Exchange Limited Listing Department, 1<sup>st</sup> Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, Phiroze JeeJeeBhoy Towers, Dalal Street, Fort Mumbai – 400 001. November 11, 2023

The Calcutta Stock Exchange Ltd. 7, Lyons Range Kolkata - 700 001 India

Company Code: 537253

Dear Sir/Ma'am,

Sub.: Newspaper clipping regarding publication of Un-audited Financial Results for 2<sup>nd</sup> quarter/1<sup>st</sup> half year ended on September 30, 2023 of the Financial Year 2023-24.

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published **Un-audited Financial Results for 2<sup>nd</sup> quarter/1<sup>st</sup> half year ended on September 30, 2023** in newspapers viz. "Pioneer" on November 11, 2023 both Hindi & English edition.

In this regard, please find enclosed newspapers clipping of the results published on November 11, 2023 and oblige.

Thanking you, Yours sincerely, For SUNIL HEALTHCARE LIMITED

SATYENDU PATTNAIK COMPANY SECRETARY F7736 Place: New Delhi Encl: a/a

Sunil Healthcare Ltd.

38E/252-A, Vijay Tower, Opp Panchsheel Park Comm. Complex, New Delhi -110049 T: +91 -11-49435555/00, F: +91 -11-43850087 Email : info@sunilhealthcare.com, Web: www.sunilhealthcare.com CIN No. : L24302DL1973PLC189662



### इजराइल-गाजा संघर्ष में प्रतिदिन एक से अधिक पत्रकार की मौत चीन ने कहा-दलाई लामा के उत्तराधिकारी को उसकी मंजुरी की जरूरत होगी बीजिंगे। चीन ने शुक्रवार के कहा कि तिब्बती आध्यात्मिक गुरू ८८ वर्षीय दलाई लामा क कोई भी

## 🗕 रोकने की मांग

### **भाषा।** क्वींसलैंड

कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स के अनुसार, 1992 में संगठन द्वारा आंकड़ों की गिनती शुरू करने के बाद से गांजा-इजरायल युद्ध मीडिया कर्मियों के लिए सबसे घातक संघर्ष रहा है। लेखन के समय, समिति ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से एक महीने में कम से कम 39 पत्रकार और मीडियाकर्मी मारे गए हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने संख्या को थोड़ा अधिक 41 बताया है। लेकिन मृत्यु दर इतनी अधिक है – प्रति दिन एक से अधिक – आशंका है कि जब तक आप इसे पढेंगे तब तक और अधिक लोग मारे जा चुके होंगे। गाजा पर इजरायल के हमलों में मारे गए पीडति़ों में ज्यादातर फ़लस्तीनी पत्रकार और मीडियाकर्मी हैं, लेकिन उनमें चार इजरायली भी शामिल हैं, जिनकी हमास ने 7 अक्टूबर को अपने शुरुआती सीमा पार हमले में हत्या कर दी थी, और एक बेरूत–आधारित वीडियोग्राफर दक्षिण लेबनान में मारा गया था। गोलाबारी में उनकी मृत्यु हो गई, जिसमें छह अन्य पत्रकार भी



घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा बच्चों और परिवारों के साथ हमलों के कि गोलाबारी इज़राइल की तरफ से शिकार हुए हैं। इज़रायली रक्षा बलों हई और स्पष्ट रूप से चिहिनत वाहनों का कहना है कि वे पत्रकारों को और बॉडी आर्मर में पत्रकारों के एक निशाना नहीं बनाते हैं, लेकिन रिपोर्टर्स समह को निशाना बनाया गया। एक विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि यद्ध पल के लिए रुककर यह याद रखना समाचारों को कवर करते समय कम से उचित है कि ए महज़ संख्याएँ नहीं हैं। कम दस लोग मारे गए हैं। निस्संदेह, प्रत्एक पीडति का एक नाम, रिश्तेदार, एक पत्रकार का जीवन किसी भी प्रियजन और एक कहानी है। समिति अन्य नागरिक से अधिक मुल्यवान के पास उन सभी लोगों की एक सुची नहीं है, और ऐसे भयावह हिंसक है जो मारे गए हैं, घायल हुए हैं या संकट में, जिसमें पहले ही 10,000 से लापता हैं। मृतकों में अंतरराष्ट्रीय अधिक लोग मारे जा चुके हैं, इसमें समाचार सेवाओं के लिए काम करने कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनमें से कुछ पत्रकार होंगे। लेकिन वाले फुलस्तीनी स्वतंत्र पत्रकार और अन्य लोग शामिल हैं जो स्थानीय इस बात के बढते सबूत हैं कि समाचार आउटलेट्स के लिए काम पत्रकारों को निशाना बनाया गया, करते हैं। कई लोग अपने घरों पर परेशान किया गया, पीटा गया और

बाइडन, शी व्यापार, ताइवान और

## अमेरिक : गाजा में संघर्ष-विराम की मांग को लेकर मीडियाकर्मियों ने किया प्रदर्शन

न्ययॉर्क। गाजा में तत्काल संघर्ष-विराम की मांग को लेकर न्ययॉर्क स्थित द न्यूँयॉर्क टाइम्स के कार्यालय की लॉबी में फलस्तीन समर्थकों ने प्रदर्शन किया और इजराइल–हमास युद्ध को कवर करते समय निष्पक्ष खबरें नहीं दिखाए जाने का आरोप लगायाँ। सैकड़ों प्रदर्शनकारी मीडिया संस्थान के मैनहट्टन स्थित कार्यालय में एकत्र हुए। इनमें से कई लोग इमारत के प्रांगण में आ गए और एक घंटे से अधिक समय तक धरना दिया। यह प्रदर्शन मीडियाकर्मियों के राइटर्स ब्लॉक नामक एक समूह के नेतृत्व में किया गया। प्रदर्शनकारियों ने गाजा में मारे गए हजारों फलस्तीनियों का जिक्र किया, जिनमें कम से कम 36 पत्रकार शामिल हैं। उन्होंने एक छदम समाचार पत्र- द न्यूयॉर्क वॉर क्राइम्स के संस्करण बांटे, जिसमें मीडिया पर नरसंहार को वैध बनाने में संलिप्तता का आरोप लगाया गया है और टाइम्स के संपादकीय बोर्ड से संघर्ष–विराम का सार्वजनिक प से समर्थन करने की मांग की गई है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बृहस्पतिवार को किए गए इस प्रदर्शन के दौरान किसी को गिरफ्तार किया गया या नहीं। इससे पहले भी अमेरिका में विभिन्न समूहों ने गाजा में जारी इजराइल के हमलों के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। हमास शासित गाजा प्रशासन के अनुसार, गाजा में युद्ध के दौरान 10,800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हमास ने इजराइल पर सात अक्टूबर को अप्रत्याशित हमला किया था, जिसके बाद से दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया। हमास के हमलों में इजराइल में कम से कम।,400 लोगों की मौत हो चुकी है।

लिए गठित समिति की सूची अधिकांश घटनाओं के लिए इजरायली अधिकारियों को दोषी ठहराती है। 12 अक्टूबर को, इज़्राइली पुलिस ने तेल अवीव में बीबीसी पत्रकारों के एक समूह पर हमला हवाई हमलों में मारे गए हैं, कुछ अपने धमकाया गया। पत्रकारों की सुरक्षा के किया और उन्हें बंदुक की नोक पर

स्तंभकार इजराइल फ्रे इसके एक दिन पहले उनके घर पर अति-दक्षिणपंथी इजरायलियों की भीड द्वारा हमला किए जाने के बाद छिप गए थे। भीड जाहिर तौर पर गाजा में फलस्तीनियों के प्रति सहानभति

व्यक्त करते लिखे गए कॉलम से थी। 5 नवंब इजरायली ' ने उत्तरी वेस्त के नब्लस में वर्षीय फलस्तीनी प सोमाया जव को गिरफ्तार लिया। उन्हें के लिए पति. तारिक सरकाजी के बलाया गय रखा। बीबीसी ने कहा कि पत्रकार उनके पति मुहन्नद टुटुनजी, हैथम अबुदियाब बाद में रिहा और उनको बीबीसी अरबी टीम स्पष्ट दिया गया, व रूप से ैटीवी अंकित वाहन चला रहे सात महीने थे, और टुटुनजी और अबुदैब दोनों ने गर्भवती ज अपने प्रेस कार्ड भी दिखाए। 16 अब भी हिरार अक्टूबर को, इजरायली पत्रकार और हैं।

उत्तराधिकरी देश के अंदर से होना चाहिए और उसे इसकी अनुमति लेनी होगी। चीन ने भारतीय सीमा के नजदीक बुनियादी ढाचा विकास को रेखांकित करते हुए, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण तिब्बत क्षेत्र को दक्षिण एथिया क दार करार दिया। चीन सरकर ने एक श्वेत पत्र में कहा है कि दलाई लाम और पचेन रिनपोचे सहित तिब्बत मे रह रहे सभी अवतरित बुद्ध के देश के अंदर से ही (उत्तराधिकरी) ढूंढना होगा, सोने के क्लश से लॉटरी निकालने की परंपरा के जरिए निर्णय लेना होगा, और केंद्र (चीन) सरवार वी मंजुरी लेनी होगी।

विदेश ()

	EXTRACT OF STATEMENT OF STA FOR THE QUARTER AN						Rs. in Lacs
			uarter Ende		Half Yea	Year Ended	
SI. No.	Particulars		30.06.2023 Unaudited				31.03.2023 Audited
1	Total Income from Operations		0				0
2	Net Profit/(Loss) for the period ( before Tax, Exceptional and/or extraordinary Items#)	-1.41	-5.36	-3.19	-6.78	-8.41	-11.92
1	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary Items#)	-1.41	-5.36	-3.19	-6.78	-8.41	-11.92
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary Items#)	2.02	-7.03	-10.68	-5.02	-7.29	-10.1
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	13.43	5.29	1.4	18.71	5.61	5.36
6	Equity Share capital	300.89	300.89	300.89	300.89	300.89	300.89
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	514.09	500.66	495.63	514.09	495.63	495.37
8	Earning per Share (face Value of Rs. 10/- each)(not annualised) 1. Basic 2. Diluted	0.06	-0.23	-0.03 -0.03	-0.17 -0.17	-0.24 -0.24	-0.34 -0.34

सांकेतिक कब्ज़े की सूचना

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ('प्रतिभूत लेनदार', जिसमें इसके उत्तराधिकारी और वारिस शामिल होंगे) और निम्नलिखित कर्जदार और

सह–कर्जदार ।'कर्जदार/रों', जिसमें उसकी/ उसके/ उनके सबंधित (उत्तराधिकारी, उत्तरापेक्षी, वारिस) शामिल होंगे, के बीच एक ऋण

समझौते के अनुसार आवास ऋण सुविधा दी गई थी। अधोहस्ताक्षरी ('प्राधिकृत अधिकारी') ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं

संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक

कब्जे की तिथि

र्रुंगटा इर्रिगेशन लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : 101, प्रगति टावर, 26, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली—110008

30-09-2022

प्रलेखापरीक्षित

2180.20

5.07

5.07

3.38

885.61

0.04

मंडल द्वारा 09 2015 के विनिय

कोन नंबर : 011–40453330, 31, 32, ई–गेल : cs@rungtairrigation.in, वेक्साइट :www.run सीआईएन : एल74899ठीएल1986पीएलसी023934

30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध—वर्ष हेत्र पृथवकृत लेखापरीक्षित वित्तीय परिणा

तिमाही समाप

30—06—2023 अलेखापरीक्षित

2658.64

264.55

264.55

198.05

1990.64

1.57 1.57

। किए गए हैं तथा निदेशक रण अपेक्षाएं) विनियमावली, 1 विवरण है। तिमाही वित्ती

30-09-2023

त्लेखापरीक्षित स्वापरीक्षित

3137.80

136.37

136.37

102.55

102.67

1992.35

0.81

मकान नंबर 585, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर 10,

फ़रीदाबाद/ नवंबर 06, 2023

नंजिल, प्लॉट नंबर- 23,

डिमांड नोटिस की तिथि/ शाखा का

नाम

दिल्ली/

एनसीआ

प्राधिकृत अधिकारी

प्रतिभूत लेनदार

वर्णित नहीं

वर्ष समाप्त

31-03-202

लेखापरीक्षित

13192.49

400.91

400.91

298.32

322.89

1659.52

2.93 2.93

डिमांड नोटिस में राशि (रु.)

अप्रैल 20, 2023

₹. 3.24.865/-

लाख में, यदि

30-09-202 अलेखापरीक्षि

4315.80

65.73

65.73

49.12

885.61

अर्द्ध-वर्ष समाप्त

(ক্ত.

30–09–2023 अलेखापरीक्षित

5796.44

400.92

400.92

300.60

300.59

1992.35

2.37 2.37

**खा कार्यालय** : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

**PICICI Bank** न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005

नाम/ ऋण खाता क्र.

## शिफा अस्पताल में शरण लिए हुए हजारों फलस्तीनी नागरिक लोग हमले के बाद भागे



**भाषा।** वाशिंगटन

खान यूनिस। गाजा के उत्तरी युद्ध क्षेत्र से जान बचाकर भाग रहे फलस्तीनी नागरिकों ने कहा कि गाजा शहर के मध्य मे स्थित शिफा अस्पताल मे शरण लिए हुए हजारों लोग रात भर हए धमाकों के बाद वहां से भाग गए। इजराइल-हमास के बीच चल रहे यद्ध के बीच अस्पताल में 80.000 लोग शरण लिए हुए थे। अस्पताल से शुक्रवार को भागे लोगों में से कुछ ने कहा कि इमारत में सैकड़ों बुरी तरह से घायल मरीज और चिकित्सक ही रह गए है। वही. फोन और इंटरनेट सेवा बाधित होने के चलते शिफा के अस्पताल के चिकित्सकों से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो पाया। सिख-अमेरिकी जग बैंस

## ने बिग ब्रदर जीतकर इतिहास रचा

लॉस एंजिलिस। वाशिंगटन के एक उद्यमी और टक कंपनी के मालिक जग बैस ने रियलिटी शो बिग ब्रदर जीतने वाला पहला सिख-अमेरिकी बनकर इतिहास रच दिया। बैस (25) ने पेशेवर तैराक मैट क्लॉट्ज और डीजे बॉवी जेन को हराकर 100 दिवसीय कार्यक्रम में शीर्ष स्थान हासिल किया। बैस अमेरिका में बिग ब्रदर हाउस मे प्रवेश करने वाले पहले सिख-अमेरिकी थे और अब वह अंतरराष्ट्रीय रियलिटी सीरीज के २५वे सीज़न में अमेरिकी संस्करण मे जीत हासिल करने वाले पहले सिख-अमेरिकी बन गए है। बिग ब्रदरै ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने आधिकारिक हैडल पर कार्यक्रम के परिणामें की घोषणा की। बैस को ७,५०,००० अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि मिलेगी। बैस ने कार्यक्रम के अंत मे होस्ट जूली चेन-मूनवेज़ से कहा,और यह सीजन हमारे नामउउ हमारे बीबी२५ पतिभागियों को बधाई और धन्यवादउ बैस अब बिग ब्रदरै के अमेरिकी संस्करण में इतिहास रचने वाले लगातार तीसरे विजेता है। २०२१ में, जेवियर प्रैथर



अनुमान लगाया जा रहा था कि बाइडन और शी सैन फ्रांसिस्को में जिम्मेदारी के साथ प्रबंधित करने तथा साझा हितों. खासतौर पर एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग अंतरराष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित सम्मेलन (एपेक) से इतर बैठक करने वाली चुनौतियों पर साथ करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव मिलकर काम करने पर चर्चा करेंगे। केरीन जीन पियरे ने एक बयान में कहा कि दोनों नेता संवाद के चीन के विदेश मंत्रालय ने शक्रवार माध्यमों को बरकरार रखने को को कहा कि अमेरिका के आमंत्रण महत्व देने और प्रतिस्पर्धा को पर शी एपेक में मंगलवार से 17

## पाकिस्तानी उच्चतम न्यायालय मृत्युदंड के विरुद्ध मुशर्रफ की अपील पर सुनवाई के लिए राजी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने 2019 में राजद्रोह के मामले में सनाई गई मौत सजा के खिलाफ पूर्व सैन्य तानाशाह (अब दिवंगत) परवेज मुशर्फ द्वारा की गई अपील पर सुनवाई करने का शुक्रवार को फैसला किया। मुशर्फ ने चार साल पहले यह अपील दाखिल की थी। उनका इस साल -पांच फरवरी को निधन हो गया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने अपनी खबर में लिखा,

पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश काजी फैंज इशा की अगुवाई वाली चार सदर्स्डय बड़ी पीठ ने उस विशेष अदालत को भंग किए जाने के फैसले के विरूद्ध अपील पर सुनवाई की जो पहले मुशर्फ राजद्रोह मामले की सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति इशा, न्यायमूर्ति सैयद मंसूर अली शाह, न्यायमूर्ति अमीनुद दिन खान और न्यायमूर्ति अतहरे मिनाल्लाह की पीठ ने लाहौर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विभिन्न बार और वकीलों की याचिकाओं पर सनवाई की। लाहौर उच्च न्यायालय ने मुशर्फ के खिलाफ सुनवाई को अमान्य करार दिया था।न्यायमूर्ति वकार अहमद सेठ, न्यायमूर्ति नजर अकबर और न्यायमूर्ति शाहिद करीम की विशेष न्यायाधीश अदालत ने 17 दिसंबर, 2019 को एक के मुकाबले दो के मत से मुशर्फ को संविधान का उल्लंघन करने को लेकर अनुच्छेद छह के तहत राजद्रोह का दोषी पाया था और उन्हें उनकी गैर हाजिरी में मृत्युदंड सुनाया था।इस फैसले पर देश की शक्तिशाली सेना खफा हो गई थी। पाकिस्तान के पिछले 75 साल के अस्तित्व में ज्यादातर समय सेना का ही सत्ता में कब्जा रहा है। पाकिस्तान में यह पहली बार था कि एक पूर्व कार्यक्रम में जीत हासिल करने वाले पहले शीर्ष सैन्य अधिकारी को ऐसी सजा का सामना करना पड़ा। बाद में लाहौर उच्च अश्वेत व्यक्ति बने थे. जबकि उससे पिछले न्यायालय ने इस सजा को निरस्त कर दिया।अखबार के अनुसार मुशर्फ की मौत साल टेलर हेल शो जीतने वाली पहली के नौ महीने बाद शुक्रवार को सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सवाल किया कि क्यों पिछले चार सालों में अपील पर सुनवाई तय नहीं की गई। अश्वेत महिला बनी थी।

नवंबर तक शरीक होंगे और अमेरिका-चीन शिखर बैठक में भाग लेंगे। बाइडन प्रशासन के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि दोनों नेता सैन फ्रांसिस्को बे इलाके में बैठक करेंगे. लेकिन सरक्षा चिंताओं के कारण और ब्योरा देने से इनकार कर

> किसी स्पष्टीकरण के इंटरनेट सेवा ठप हो गई। वेबसाइट पर निगरानी रखने वाली एक संस्था ने यह जानकारी दी।

PUBLIC NOTICE PUBLIC NOTICE Bintery of the Narry client Vironder Singh is ses to purchase the Property No. 6-12, Area (in 50 Su, Yd, S-Prid Khara Nu. 108 A 110, it at Vilage Gokapur in the abad of G-Block, Nin, Illauga Shafana, Dahi-94 Avaiming loan ramai Capital & Housing Finance Linited from in who is the varies of the Virona of Agreement to dd USIOD executed by pushpa devi and the second second by pushpa devi equitable fragments and the second second second of the second second by the second second of the second second second second second provided to an of the second is not writing to a provide the active is a second second second second of the second provided to an of the second is not writing to a provide the active is a second c) sublease, there is a sublease, the same is a sublease, the same is a sublease, the same is a sublease is a s doned. Kamal Kant Gupta (Advocate) FF-2, First floor, Mahaluxmi Metro Tower 4, Vaishali, Gzb., U.P., Mob. 9810063351 ओर झुकता देखते हैं।

SUNLOC

तक गायब हो जाएंगे खगोलशास्त्री की राय **भाषा।** क्वींसलैंड **यदि आपके** पास एक दूरबीन हो तो आसमान में वलय वाले ग्रह – शनि से भी ज्यादा शानदार कुछ दृश्य हैं।वर्तमान में, शनि शाम के आकाश में सूर्यास्त के तुरंत बाद अपने उच्चतम स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई

क्या शनि के छल्ले २०२५

आतभूता हित (प्रवतन) गायमावता, 2002 ( गियमावता) के गियम उस साथ पाठत पारा 13 (12) क अयाग भ्रत्त शार्लया को भ्रयाग करसे हुए अविधियम की धारा 13(2) के उन्तरांत नीवे वर्णित कर्जदारी / सह-कर्जदारों को मांग पूखनाएँ निर्माति की थीं, जिसमें ऋण समझौत के अनुसार बकाया राशि का भुगतान करने के लिए और जैसा कि विशेष रूप से उन्तर नंबरित मॉग सूचनाओं में उल्लिखित है, उक्त सूचना की प्रार्थित की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि का प्रतिगुप्ताना करने को कहा गया था। कर्जदार / सह-कर्जदार राशि का प्रतिमुप्तान करने में विफल रहे हैं, अतप्रद एतद द्वारा कर्जदार / सह-कर्जदार तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा उक्त अधिनियम धारा 13(4) के साथ पठित नियमावली के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए संपत्ति का सांकेतिक अधिग्रहण किया गया है। सपंत्ति के सांकेतिक कब्ज़े की तारीख सहित विवरण नीचे वर्णित है कर्ज़दार/ सह-कर्ज़दार का राजकुमार/ मधुबाला/ LBDEL00000375339 उपरोक्त दर्शाए गए कर्ज़दार/ ज़मानतदारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् अधिग्रहित संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी जो पूर्णतः सुरक्षित ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 वे नियम 8 और 9 के अंतर्गत है। दिनांक : नवंबर 10, 2023

स्थान : दिल्ली / एनसीआज पहले कि शनि शाम के आकाश में Ø दुश्य से ओझल हो जाए, वास्तव में इसके शक्तिशाली छल्लों को देखने का हमारा आखिरी मौका हो सकता है ? संक्षिप्त जवाब नहीं है। हालांकि यह सच है कि 2025 में छल्ले पथ्वी विवरण से लगभग अदश्य हो जाएंगे, यह न तो कोई आश्चर्य की बात है और न ही गलनों से कुल आय 1घि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) (कर, अ ग/अथवा असापारण मदों से पूर्व) घबराने की बात है। इसके तुरंत बाद यह छल्ले फिर से प्रकट होंगे। इसकी वधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) कर से पू अपवाद तथा/अथवा असाघारण मदों ब वजह यहाँ बताई गई है। पृथ्वी का <u>श्वात)</u> ग्वधि हेतु शुद्ध झुकना : यह समझने के लिए कि शनि के बारे में हमारा दृष्टिकोण क्यों बदलता है, आइए सूर्य के चारों ओर परपात) अवधि हेतु कुल समावेशी आय |जिसमें अवधि हेतु लाम∕(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) पृथ्वी की अपनी निरंतर यात्रा पर विचार करके शुरुआत करें। यह यात्रा ग्मलित है। विटी शेयर पूंजी विर्य (पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर) जैसागि उले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में हमें ऋतुओं के पार ले जाती है – सर्दी से वसंत, गर्मी और शरद ऋतू तक, र्गीया गया है ते शेयर अर्जन (रू. 10/– प्रत्येक गरी और बंद प्रचालनों हेतु) – फिर वापस।ऋतुओं के बनने का क्या कारण है ? सीधे शब्दों में कहें तो पृथ्वी एक मूलः तनुकृत तरफ झुकी हुई है, जैसा कि सूर्य से देखा जाता है। हमारी भूमध्य रेखा हमारी कक्षा के तल से लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है।परिणाम ? जैसे ही हम सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, हम बारी-बारी से एक गोलार्ध

उपरोक्त वित्तीय परिणाम लेखापरीक्षा समिति द्वारा उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और अन्य अर्द्ध-पार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप व उपलब्ध है। और फिर दूसरे गोलार्ध को अपने तारे की प्रान ः नई दिल्ली

## वास्ते रूंगटा इर्रिगेशन लिमित श्रुति रूंगटा गर्यकारी निदेशक

0.55 0.55

सुनील हेल्थकेयर लिमिटेड

लाम/(हानि) कर पश जन्मता जन्मापारण मदों

# <u>पंजीकृत कार्यालय</u> 38ई /252–ए. विजय टावर, शाहपुरजाट, नई दिल्ली–110049 @sunilhealthcare.com, वेबसाइट : www.sunilhea

दिया । हूती विद्रोहियों के हालिया हमलों के बाद युद्धग्रस्त यमन में इंटरनेट सेवा ठप दुबई। युद्धग्रस्त राष्ट्र यमन में बृहस्पतिवार मध्यरात्रि को बिना

देता है। सौरमंडल के छठे ग्रह और उसके प्रसिद्ध छल्लों का अच्छा दृश्य देखने के लिए टेलीस्कोप या दरबीन का उपयोग करने का यह आदर्श समय है। लेकिन पिछले कछ दिनों में सोशल मीडिया पर कई लेख जंगल की आग की तरह फैल गए हैं। उन लेखों का दावा है कि शनि के छल्ले तेजी से गायब हो रहे हैं - और 2025 तक गायब हो जाएंगेउ तो कहानी क्या है? क्या अगले कछ महीने. इससे

### ई-मेल : inf

सीआई एन : एल24302डीएल1973पीएलसी189662

30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही और अर्द्ध वर्ष हेतु अलेखापरीक्षित पृथक्कृत एवं समेकित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

(रू. लाख में)

मा         विवर्पण         अठ-ө-хога зо-ө-хога зо-в-хога зо-ө-хога зо-ө-хога зо-ө-хога зо-ө-хога зо-ө-хога зо-е-хога зо-е-хо	ापरीक्षित	30 09 2022 3	30 09 2023					
2         अवसि हेतु सुद्ध लाम (कर, अपवाद तम्पा/अथवा असामारण मदी से पहले)         -9.36         -6.24         25.52         -15.60         37.82         45.06           3         अवसि हेतु सुद्ध लाम, कर से पहले (अपवाद तथा/अथवा आसामारण मदों के बाद)         -9.36         -6.24         25.52         -15.60         37.82         45.06           4         अवसि हेतु सुद्ध लाम, कर पहलात (अपवाद तथा/अथवा आसामारण मदों के बाद)         -9.36         -6.24         25.52         -15.60         37.82         33.36           5         आवसि हेतु सुद्ध लमा से जवा आजा (जिसमें आवधी जिसमें आवधी)         -9.36         -6.24         25.52         -15.60         37.82         33.36		अलेखापरीचित व	अलेलापरीवित	30-09-2022 अलेखापरीखित	30—06—2023 अलेखापरीयित	30–09–2023 अलेखापरीवित	विवरण	क्र. सं.
असायारण गदों से पहले)	3.81	101.69	66.45	51.51	34.38	32.07	प्रचालनों से कुल आय	1
प्रधा/अथवा असामारण्य यदों के बाद) 4 अवसीय हेतु युद्ध लागः कर परवात (अयवाद तथा/अवधा असमारण्य भदों के बाद) 5 अवसि हेतु कुल समावेशी आव ।जिसमें अवधि 4-9.36 -6.24 25.52 -15.60 37.82 33.36	5.08	37.82	-15.60	25.52	-6.24	-9.36		2
तथा/अथवा असावारण मदों के बाद) 5 अवधि हेतु कुल समावेशी आय ।जिसमें अवधि -9.36 -6.24 25.52 -15.60 37.82 33.36	5.08	37.82	-15.60	25.52	-6.24	-9.36		3
	3.36	37.82	-15.60	25.52	-6.24	-9.36		4
हेतु लाम (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित हैं	13.36	37.82	-15.60	25.52	-6.24	-9.36	हेतु लाम (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय	5
6 इतिवटी शेयर पंजी 300.10 300.10 300.10 300.10 300.10 300.10	0.10	300.10	300.10	300.10	300.10	300.10	इक्विटी शेयर पूंजी	6
7 संचेय (पुनर्मूच्यन संचेय छोड़कर) जैसाकि पिछले ₹3.31 3.31 ₹3.31 ₹3.31 ₹3.31 ₹3.31 ₹3.31	3.31	3.31	₹3.31	₹ 3.31	3.31	₹3.31		7
	0.11 0.11						(जारी और बंद प्रचालनों हेतु) – (क) मूल (रू. में)	8

2 अग तथ 3 अग तथ 4 अग	विवरण विवरण अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) (कर, अपवाद ग्था/अथवा असाधारण गदी से पहले) अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) कर से पहले (अपवाद ग्था/अथवा असाधारण गदी के बाद)	30 चितन्पर, 2023 अलेखापरीक्षित 2,390.79 (138.56)	तिमाही समाप्त 30 जून, 2023 अलेखापरीक्षित 2,294.83	30 सितम्बर, 2022 अलेखापरीक्षित 3.235.65	अर्ह्य 30 सितम्बर, 2023 अलेखापरीक्षित	वर्ष समाप्त 30 रिातग्बर, 2022	वर्ष समाप्त 31 मार्च, 2023	30 सितम्बर, 2023	<u>तिमाही समाप्त</u> 30 जून	30 सितम्बर,	अर्ब द 30 रिताम्बर	ार्थ समाप्त 30 रिएतम्बर,	वर्ष समाप्त 31 मार्च,
सं. 1 पा 2 अप तथ 3 अप तथ 4 अप	रिवालन से कुल आय प्रवपि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) (कर, अपवाद ग्रथा/अथवा असाधारण मदों से पहले) वावी हेतु शुद्ध लाम/(हानि) कर से पहले (अपवाद	सितम्बर, 2023 अलेखापरीक्षित 2,390.79	जूग. 2023 अलेखापरीक्षित 2,294.83	सितम्बर, 2022 अलेखापरीक्षित	सितम्बर, 2023	रिातम्बर, 2022	मार्च,	सितम्बर,	जून				
2 आ तः 3 आ तः 4 आ	प्रवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) (कर, अपवाद 1था/अथवा असाधारण मदों से पहले) प्रवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) कर से पहले (अपवाद	2,390.79	2,294.83		अलेखापरीक्षित	> 00			2023	2022	2023	2022	2023
2 आ तः 3 आ तः 4 आ	प्रवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) (कर, अपवाद 1था/अथवा असाधारण मदों से पहले) प्रवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) कर से पहले (अपवाद			0.005.05		अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
तः 3 अन् तः 4 अन् तः	1था/अथवा असाधारण मदों से पहले) प्रवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) कर से पहले (अपवाद	(138.56)			4,685.62	6,677.29		2,392.13	2,369.76	3,241.24	4,761.89	6,673.56	11,498.74
तः 4 अन् तः			(98.60)	315.16	(237.16)	925.16		(146.13)	(86.89)	303.54	(233.02)	885.97	948.33
तः		(138.56)	(98.60)	315.16	(237.16)	925.16	975.86	(146.13)	(86.89)	303.54	(233.02)	885.97	948.33
E	अवधि हेतु शुद्ध लाम∕(हानि) कर पश्चात (अपवाद 1था∕अथवा असाधारण मदों के बाद)	(102.01)	(75.61)	224.90	(177.62)	671.65	697.69	(109.89)	(64.17)	212.65	(174.06)	631.15	668.21
ला	प्रवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु नाम∕(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय कर पश्चात) शामिल है]	(102.01)	(75.61)	224.90	(177.62)	671.65	693.58	(107.60)	(84.43)	204.03	(192.03)	611.41	604.20
б яз	।दत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रू. 10∕−प्रत्येक)	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48
के प्रा	तंबेय (पुनरमूल्य संबेय छोड़कर) जैसाकि पिछले वर्ष हे लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है ाति शेयर अर्जन (असाघारण मर्दो के बाद) (रू. 0/- प्रत्येक का)	-		120	-	-	5,147.07		2			2	4,574.21
	क) मूल (रू.) ख) तनुकृत (रू.)	(0.99) (0.99)	(0.74) (0.74)	2.19 2.19	(1.73) (1.73)	6.55 6.55	6.80 6.80	(1.07) (1.07)	(0.63) (0.63)	2.07 2.07	(1.70) (1.70)	6.15 6.15	6.52 6.52
सार है। 2. ये f	ारोक्त विवरण सेबी (सूचीयन और अन्य प्रकटीव रकित रूप है। तिमाही/अर्द्ध वार्षिक वित्तीय परि	रेणामों का पूर्ण धारा 133 के	, विवरण स्टॉन तहत निर्धारित	क एक्सचेन्ज व ा भारतीय लेख	की वेबसाइट ( बांकन मानक	www.bsei (आईएनडी ए	ndia.com एस) और य	) पर तथा व थासंभव अन्य	म्पनी की वेब मान्य लेखांक	साइट (www न पद्धतियों ए	.sunilhealt वं नीतियों के	hcare.com अनुसार तैयार	) पर उपलब्ध किए गए हैं।
	रतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस–108) <sup>•</sup> गरोक्त परिणामों का पुनरीक्षण लेखापरीक्षा समिति						3 को सम्प	न्न उनकी संब	धित बैठकों मे	ं किया गया	था।		
	ः नई दिल्ली		3										अनिल खेतान
	: 09-11-2023											अध्यक्ष सह !	प्रानंध निदेशक ( : 00759951)



## Sensex, Nifty rebound on fag-end Forex trade impacted by platform outage, buying; power, utility shares advance **RBI** seeks explanation

equity benchmark indices Sensex and Nifty rebounded on Friday to close with marginal gains due to fag-end buying in power, utility and metal stocks amid weak global trends. After remaining in the negative terri-

tory for most part of the session, the 30-share BSE Sensex climbed 72.48 points or 0.11 per cent to settle at 64,904.68. During the day, it fell 251.25 points or 0.38 per cent to 64,580.95. The Nifty went up by 30.05 points or 0.15 per cent to 19,425.35.

### **SOJO INFOTEL PRIVATE LIMITED** CIN: U74999DL2016PTC302026

Regd. Office : M-11, Mezanine Floor, Balrama House Commercial Complex, Karampura, New Delhi 110015 | E-mail: info.sojoinfotel@gmail.com Website: soloinfotel solo co in I Contact No.: 7428193046

## EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2023

(₹ in Lacs unless otherwise stat											
		Quarter	Ended	Half Year Ended	Year Ended						
SI No.	Particulars		30/09/2022 (Un-Audited)		31/03/2023 (Audited)						
1.	Total Income from Operations including										
	other income	23.56	21.50	47.79	177.99						
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items#)	(918.40)	(849.84)	(1,644.19)	(3,220.74)						
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before tax										
	(after Exceptional &/ or Extraordinary items#)	(918.40)	(849.84)	(1,644.19)	(3,220.74)						
4. 5	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items#) Total Comprehensive Income for the period	(687.25)	(635.95)	(1,230.38)	(2,410.15)						
э.	[Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive										
	Income (after tax)]	-		-							
6.	Paid up Equity Share Capital	1	1	1	1						
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(6,202.91)	(3,892.87)	(6,202.91)	(4,972.52)						
8.	Securities Premium Account	-		-	-						
9.	Net worth	(6,201.91)	(3,891.87)	(6,201.91)	(4,971.52)						
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	17400	20000	17400	20000						
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA	NA						
12	Debt Equity Ratio	NA	NA	NA	NA						
13.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each)										
	(for continuing and discontinued operations) -										
	1. Basic: (in Rupees)	(6,872.55)	(6,359.51)	(12,303.81)	(24,101.46)						
	<ol><li>Diluted: (in Rupees)</li></ol>	(6,872.55)	(6,359.51)	(12,303.81)	(24,101.46)						
14.	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA						
15.	Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA						
16.	Debt Service Coverage Ratio	0.01	0.27	0.02	0.04						
17.	Interest Service Coverage Ratio	0.02	0.02	0.02	0.02						

The above results have been reviewed & approved by Board of Directors in their meeting held on 9th Nov. 2023.

The above is an extract of detailed format of unautited standalone financial results of the quarter and half year The above is an extract of detailed format of unautited standalone financial results for the quarter and half year ended Sep 30, 2023 filed with Bombay Stock Exchange under Regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015. The full format of the financial result can be accessed at URL (http://www.bseindia.com/a halftp://sojinficle.sojo.com/ For the other line litems referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disc osures have been ended by the other line litems referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations.

made to the Bombay Stock Exchange and can be accessed on the URL (http://www.bseindia.com/) and can b accessed at URL http://soicinfotel.soio.co.in/

 A Previous period figure have been regrouped and reclassified to confirm with current period's presentation
 wherever applicable
 For and on behalf of Board of Directors o ed to confirm with current policy of Directors of For and on behalf of Board of Directors of Sojo Infotel Private Limited Sd/

Shailendra Nath Rai (Director) DIN: 00908417

Date: 09.11.2023 Place: Noida

ReNew Akshay Urja Limited CIN: U403000L2015PLC275651 Regd. Office: 138, Ansal Chambers II, Bikaji Cama Place, Delhi-110066 Corporate Office: 10th Floor, Building No.: 5, Tower A, DLF Epitome, DLF City Phase III, Sector 25, Gurugram-122002 Statement of Un-audited Financial Results for the period ended 30 September 2023

 
 Quarter ended
 Quarter ended
 Quarter ended
 Quarter ended
 Quarter ended
 Year

 30 September
 30 September
 30 June
 ended 2023
 2022
 31 March 2023

 (Unaudited)
 (Unaudited)
 (Unaudited)
 (Unaudited)
 (Unaudited)
 (Unaudited)
 Particulars

	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total Income from Operations	321	311	403	1,464
Net Profit for the period (before Tax,				
Exceptional and/or Extraordinary items)	124	62	365	509
Net Profit for the period after tax				
(after Exceptional and/or Extraordinary items)	93	48	272	379
Net Profit for the period after tax				
(after Exceptional and/or Extraordinary items)	93	48	272	379
Total Comprehensive Income for the period				
[Comprising Profit / (Loss) for the period				
(after tax) and Other Comprehensive				
Income (after tax)]	93	48	272	379
Paid up Equity Share Capital	133	133	133	133
Reserves (excluding Revaluation Reserve)	3,429	2,769	3,334	3,061
Equity component of compulsory				1
convertible debentures	1,144	1,144	1,144	1,144
Net worth**	4,706	4,095	4.611	4,338
Paid up Debt Capital*	5,507	6,079	5,700	5,699
Debt Equity Ratio *	2.03	2.18	2.11	2.11
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)	100000.0000			00000000
(for continuing and discontinued operations)				
1. Basic :	4.08	2.09	11.92	16.61
2. Diluted :	4.08	2.09	11.92	16.61
Debenture Redemption Reserve *	299	283	305	239
Debt Service Coverage Ratio *	3.31	2.18	7.52	3.57
Interest Service Coverage Ratio	2.00	1.81	3.85	2.25
Current ratio*	3.10	2.87	3.20	2.95
Long Term Debt to Working Capital*	1.90	2.23	1.95	1.97
Total Debts to Total Assets Ratio*	0.44	0.54	0.51	0.51
Current Liability Ratio*	0.20	0.18	0.20	0.19
Debtor Turnover Ratio*	0.64	0.15	0.44	0.96

0.15 Disclosures pursuant to Regulations 52(4) Securites and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Credit Rating : IND AA+ (CE)

Place : Gurugram Date : 10 November, 2023

Change in credit rating : No Debt Equity ratio : mentioned above Debt Service Coverage Ratio : mentioned above

Interest Service Coverage Ratio : mentioned above Outstanding redeemable preference shares (Quantity and Value) : Not Applicable 30 September 2023) : INP 4 706 (31 M

During the Samvat year 2079 ended on Friday, the BSE Sensex jumped 5,073.02 points or 8.47 per cent, while the Nifty climbed 1,694.6 points or 9.55 per cent. During this period, the market capitalisation of BSE-listed surged over Rs 43.81 lakh crore to reach Rs 3,20,29,232.24 crore. On a weekly basis, the BSE benchmark advanced 540.9 points or 0.84 per cent, and the Nifty rose 194.75 points or 1

Particulars

Total Income from Operations

Secuirties premium Net worth

Debt Equity Ratio

. Basic : . Diluted

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax

Net Profit / (Loss) for the period (before 1a) Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Tebl Comprehensive Incense for the period

Total Comprehensive Income for the period

Income (after tax)] Paid up Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve)

Paid up Debt Capital / Outstanding Debt

Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operation

Debenture Redemption Reserve

Interest Service Coverage Ratio Interest Service Coverage Ratio\* Current ratio\* Long Term Debt to Working Capital\*

Ratios have been computed as follows

Non-Current borrowings

Current Ratio = Current Assets/ Current Liabilities

Current Liability Ratio\* Total Debts to Total Assets Ratio\*

Debtors Turnover Ratio\*

Operating margin (%) Net profit margin (%)

Expense

tes

ventory Turnover Ratio

Debt Service Coverage Ratio

[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive

**ReNew Wind Energy (Jath) Limited** CIN No. U40101DL2012PLC236227 Regd. Office : 138, Ansal Chambers II, Bikaji Cama Place, Delhi-110066 India Corporate Office : ReNew Hub, Commercial Block-1, Zone-6, Golf Course Road, DLF City Phase-V, Gurugram 122009, Haryana, India Phone No. : 124 489 6670/80 Statement of Unaudited Financial Results for the quarter and haff year ended September 30, 2023 (New this NB weak in the Section 2016) (New the INB weak in the section of the

(Amounts in INR millions, except share and per share data, unless otherwise stated

350

164

164

110

110

153 1,888 1,366 2,041 2,467

7.06 7.06 168 0.38 3.70 2.49 1.57 0.25 0.48

0.93

65% 31%

88.01

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

 Quarter ended
 Quarter ended
 Quarter ended

 30 September
 30 June
 30 September

 2023
 2023
 2022

 (Unaudited)
 (Unaudited)
 (Unaudited)

213

67

67

53

153 1,779 1,366 1,932 2,641

1.66

3.45

3.45 180 1.49

2.42 2.64 1.54 0.24 0.48

0.85

119.29

56%

25%

Tech Mahindra, UltraTech Cement, Bajaj Finance, ITC, Bajaj Finserv, Axis Bank and Power Grid were the

major gainers. On the other hand, Mahindra & Mahindra, HCL Technologies, Titan and IndusInd Bank were among the

laggards. "The benchmark index is taking cues from the global market as the US central bank is not confident that head-line inflation is under control and Per cent. bond yields are mounting higher. Among the Sensex firms, NTPC, Despite these concerns, the market has

32

257

257

191

191

153 1,822 1,366 1,975 2,826

1.66

12.43 12.43 278 4.49

4.49 2.83 1.67 0.21 0.53 0.44

71%

59%

Year

ended 1 March 2023 (Audited)

719

223

223

149

149

153 1,726 1,366 1,879

2.639

1.54

9.73

9.73 151 2.49

2.26 2.55 1.76 0.23 0.52

1.41

781.73

51% 21%

displayed strong resistance, anticipating that India's October inflation will be manageable and upside revision is expected for Q1 FY24 GDP growth," said Vinod Nair, Head of Research, Geojit

Financial Services. In the broader market, the BSE smallcap gauge climbed 0.38 per cent, and the midcap index advanced 0.33 per cent. Among the indices, utilities jumped 0.95 per cent, power (0.67 per cent), commodities (0.67 per cent), commodities (0.35 per cent), and capital goods (0.37 per cent). Consumer Discretionary, IT, telecommunication, auto and tech were among the losers. In Asian markets, Seoul,

PTI New Delhi

The government on Friday said more than 20 aban-

doned mines have been iden-

tified by state-owned CIL for

### able. Tokyo, Shanghai and Hong Kong settled lower. According to market partici-pants, the Rupee, which has

abandoned mines for

pump storage projects

**Coal India identifies 20** 

PTI 📕 MUMBAI

platforms suffered an outage

around midday during the trading hours due to which

players were unable to log into the system, according to

Orders dried up as a result of

this, they said, adding that this created a heightened uncertainty in the forex market,

causing excess volatility in the

Indian rupee, which was avoid-

outage.

sources.

been range-bound around 83.30 to the dollar for many weeks lost some ground as a result of the volatility, depreci-**¬**rading in the forex market was impacted on Friday as one of the platforms suffered an ating till 83.50 intra-day before closing at 83.34 at the end of One of the electronic trading

the trading session. A source said the Reserve Bank of India has asked the platform to undertake a "root cause analysis" and "ascertain whether it was a system failure or human error that led to the disruption" on the platform. The RBI has also sought an explanation from the platform to understand the circumstances leading up to the dis-ruption and if the standard operating procedures on busi-ness continuity were triggered

immediately or not.

# Kukdukoo festival in Gurugram

Kukdukoo Fest in November 5. This grand cel-ebration of childhood, litera-

ture, arts, and theatre wit-

nessed a record-breaking foot-

fall of 31,543. Renowned

celebrities, including Bollywood actress Soha Ali Khan and the talented ven-

triloquist Vighnesh Pandey, graced the event. Kukdukoo Fest has become

the canvas of childhood itself,

where every colour and stroke

represents the joy, curiousity,

and dreams of our children.

leaving us in awe of their view of the world, said

Avishek Roy, festival co-

This festival is a gentle nudge

in the midst of our hectic lives,

founder.

PNS 📕 GURUGRAM

these mines are feasible for pump storage projects. Further, direction has been given for stakeholders consultation with agencies who may be interested in undertaking such projects and to identify additional sites that can be used for setting up of pump storage projects, the coal ministry said in a statement. "The business model like EPC

huge land area are available in

coal producing areas. Many of

and PPP may be finalised in consultation with stakeholders and such projects may be implemented in collaboration with various stakeholders, including state governments, private players and research institutions, it said.

## The coal ministry is embarking on a plan to develop such projects in de-coaled coal mines. leveraging the economic

### advantages of a vast land bank and economic viability. The aim of the plan is to diversify reminding us to pause and revel in the beauty of laughter, the richness of learning, and towards alternative source of the magic of coming together, remarked Soha Ali Khan.

## Rungta Irrigation Limited

Regd. Office: 101, Pragati Tower 26, Rajendra Place, New Delhi 110008 Tel: 011-40453330,31,32, E-mail: cs@rungtairrigation.in, Website: www.rungtairrigation.i CIN : L74899DL1986PLC023934

Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30-09-2023											
				(Rs. in Lal	khs, Unless Oth	erwise Stated					
	Fort	the Quarter E	nded	For the Half	Year Ended	Year Ended					
Particulars	30.09.2023 Unaudited	30.06.2023 Unaudited	30.09.2022 Unaudited	30.09.2023 Unaudited	30.09.2022 Unaudited	31.03.2023 Audited					
Total income from operations	3137.80	2658.64	2180.20	5796.44	4315.80	13192.49					
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	136.37	264.55	5.07	400.92	65.73	400.91					
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	136.37	264.55	5.07	400.92	65.73	400.91					
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	102.55	198.05	3.38	300.60	49.12	298.32					
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	102.67	197.92	3.38	300.59	48.85	322.89					
Equity Share Capital	1992.35	1990.64	885.61	1992.35	885.61	1659.52					
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-		-					
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:	0.81 0.81	1.57 1.57	0.04 0.04	2.37 2.37	0.55 0.55	2.93 2.93					
<ul> <li>The above financial results have been on 09th November, 2023.</li> <li>The above is an extract of the detai Regulation 33 of the SEBI (Listing an Results are available on the Stock Exch</li> </ul>				al Results filed w 015. The full for	rith the Stock Ex mats of the Qua	changes under rterly Financial					
Place: New Delhi Date : 09/11/2023					Exec	Sd/- Shruti Rungta utive Director DIN:00229045					

### Place : Gurugram Date : 10 November, 202

### ReNew Wind Energy (Jath) Limited (Sd./-) Balram Mehta Managing Director, DIN : 06902711 Date : 09/11/2023

For and on behalf of the

SUNIL HEALTHCARE LIMITED

tricity using water that has previously been pumped from a reservoir in the pit into an upper reservoir. During periods of low demand, the water is pumped into the higher reservoir. When demand is high, the water is released to drive a turbine in a powerhouse and feed electric-

Pumped storage power plants use gravity to generate elec-

Ø

ity into the grid. Over 200 de-coaled mines with

Earning per share = Profit after Tax / Weighted average number of equity shares Debt Equity Ratio\* = Debt (Amount due to Debenture Holders) / Equity (Equity share capital, share premium, loan from Related party and excluding un-amortized fees) Interest Service Coverage Ratio\* = Profit before interest, tax and depreciation / Total Interes Long Term Debt to Working Capital = Non- Current borrowing including current maturities of Non-current borrowings/(Current Assets - Current Liabilities excluding current maturities of

Non-Current borrowings) Bad debts to Accounts Receivable ratio = Bad debts / Average Trade receivables and Average unbilled Revenue Current Liability Ratio - Current Liabilities/ Total Liabilities Total Debts to total Assets = Total outstanding debts/ Total Assets Debtors turnover = Revenue from operation/ Average trade receivables and Average unbilled Revenue Inventory Turnover = Revenue from operation/ Average Inventories Operation martin (%) = (Profit hefore tax + Einance costs - Other income + Carbon credit (net of

energy.

unbilled Revenue
 Inventory Turnover = Revenue from operation/ Average Inventories
 Operating margin (%) = (Profit before tax + Finance costs - Other income + Carbon credit (net of expenses))/ Revenue from operations + Income from carbon credits
 Net Profit Margin (%) = Net profit after Tax + Finance costs - Other screaised (excluding non-cash adjustments, if any)\*\*Depreciation- Interest (Interest, Guarantee Fees, other financing costs payable under Debenture and Project Revenues realised (excluding non-cash adjustments, if any)\*\*Depreciation- Interest (Interest, Guarantee Fees, other financing costs payable under Debenture and Project Documents )) / (Interest + Principal Repayment + Guarantee fee).
 Net worth represents issued subscribed and paid up capital plus reserves and surplus.
 The above is an extract of the detailed forma of quarterly financial results filed with the Stock Exchange(s) under regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of the quarterly financial results is available on the website of National Stock Exchange of India Limited.
 For the other line items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the National Stock Exchange of India Limited.
 The statement has been prepared in accordance with recognition and measurement principles lial down in accordance with the Indian Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting" (Ind AS 34') as prescribed under Section 133 of the Companies (Indian Accounting Standard) Studes, 2015 and relevant rules issued thereunder and other recognized accounting practices and policies.
 The companies (Indian Accounting Standard) Studes, 2013 and relevant rules issued thereunder and other recognized accounting practices and policies.
 The companies (Indian Accounting Standard) Studes, 2013 and relevant rules issued thereunder and other recognized accounting pract

evaluation and feasibility study for pump storage projects. The information was shared by Coal India Ltd (CIL) during a diversification review meeting held by Coal Secretary Amrit Lal Meena. State-owned NLCIL has also taken up a feasibility study on pump storage projects, the coal ministry said in a statement.

Net worm " (30 September, 2023) : INK 4,706 (31 March, 2023 : INK 4,336) Net profit after tax : mentioned above Earning per share : mentioned above Debenture Redemption Reserve (30 September, 2023) : INR 299 (31 March, 2023 : INR 239) There are no material deviation in the use of proceeds of issue of Non Convertible Debentures the objects stated in the offer document (Regulations 52(7))

- Ratios have been computed as follows : Ratios have been computed as follows : Forming per share (Basic & Diluted) = Profit after Tax / Weighted average number of equity share period per share (Basic & Diluted) = Profit after Tax / Weighted average number of equity share to the Debesture Holders) / Equity (Equity share capital Earning per share (Basic & Diluted) = Profit after Tax / Weighted average number of equity shares
   Debt Equity Ratio<sup>+</sup> = Debt (Amount due to Debenture Holders) / Equity (Equity share capital + share premium + quasi equity i.e. Short term borrowing but excluding unamortize fees)
   Interest Service Coverage Ratio = Profit before interest, prior period items, tax, extraordinary
- items and depreciation / (Total Interest Expense). Debt Service Coverage Ratio\* = ((PAT based on Project Revenues realised (excluding non-cash adjustment, if any) + Depreciation + Interest (Interest, Guarantee Fees, other financing costs payable under Debenture and Project Documents )) / (Interest + Principal Repayment + Guarantee fee) vment + Guarantee fee)

- Repayment + Guarantee fee). Asset Coverage Ratio = (Total Assets) / Debt (Amount due to Debenture Holders) Current ratio= Current Assets / Current Liabilities Current Liability Ratio= Current Liabilities / Total Liabilities Long Term Debt to Working Capital = Non-Current borrowing including current maturities of Non-current borrowings/ (Current Assets Current Liabilities (excluding current maturities of Non-Current borrowings)
- Non-Current borrowings)) Total Debts to Total Assets Ratio = Total outstanding debts/ Total Assets
- Debtors Turnover Ratio = Revenue from operations (Average Trade Receivables
   \*As per Debenture Trust Deed dated 20 September, 2017.
   \*Network Decrement in the section of the s
- \*\* Networth represents issued subscribed and paid up capital plus reserves and surplus. Reserves and Surplus includes Capital reserve, General reserve, Debenture redemption reserve, Securities premium account and Profit and loss account balance.
- The above is an extract of the detailed format of guarterly financial results filed with the Nationa
- The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the National Stock Exchange under regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of the quarterly financial results is available on the website of the Stock Exchange. The company is in the business of development and operation of solar power. There is only one segment (business and/or geographical) in accordance with the requirements of IND AS 108 'Operating Segments'. For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the National Stock Exchange (NSE) and can be accessed on URL https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-announcements. The above financial results of the Company for the quarter and half year ended 30 September 2023 has been reviewed by audit committee and has been approved by the Brand of Directors of the set of the store set.
- has been reviewed by audit committee and has been approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 10 November 2023. The statutory auditors of the company have carried the limited review for financial results of the Company alf o

	For and on behalf of ReNew Akshay Urja Limited
Mana	(Sd./-) Parul Agrawal aging Director, DIN : 08452687



### **Registered Office** 38E/252-A, Vijay Tower, Shahpurjat New Delhi-110049

Email: info@sunilhealthcare.com; website: www.sunilhealthcare.com

## CIN No. L24302DL1973PLC189662

Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September 2023

(Rs. in Lakhs

S.	Particulars	Standalone							Consolidated				
No.			arter Ende			ear Ended			uarter Ende			ar Ended	Year Ended
		30th September	30th June		30th September	30th September	31st March	30th September	30th June	30th September	30th September	30th September	31st March
		2023	2023	2022	2023	2022		2023	2023	2022	2023	2022	2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	2,390.79	2,294.83	3,235.65	4,685.62	6,677.29	11,345.87	2,392.13	2,369.76	3,241.24	4,761.89	6,673.56	11,498.74
2	Net Profit / (Loss) for the period (before	(138.56)	(98.60)	315.16	(237.16)	925.16	975.86	(146.13)	(86.89)	303.54	(233.02)	885.97	948.33
3	Tax,Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(138.56)	(98.60)	315.16	(237.16)	925.16	975.86	(146.13)	(86.89)	303.54	(233.02)	885.97	948.33
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(102.01)	(75.61)	224.90	(177.62)	671.65	697.69	(109.89)	(64.17)	212.65	(174.06)	631.15	668.21
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(102.01)	(75.61)	224.90	(177.62)	671.65	693.58	(107.60)	(84.43)	204.03	(192.03)	611.41	604.20
6	Paid-up equity share capital (Face value Rs. 10/- each)	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1.025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		-		-		5,147.07		÷			-	4,574.21
8	Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs.10/- each)												
	(a) Basic (Rs.) (b) Diluted (Rs.)	(0.99) (0.99)	(0.74) (0.74)	2.19 2.19	(1.73) (1.73)	6.55 6.55	6.80 6.80	(1.07) (1.07)	(0.63) (0.63)	2.07	(1.70) (1.70)	6.15 6.15	6.52 6.52

ate

New Delhi 11/9/2023

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Half Year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligation and The above is an extract of the obtained format of the during in an east ended in an east is need with the Stock Exchanges under negutation so the SLor (using obligation and block exchanges under negutations). Begulations, 2015. The full format of the Quarterly/Haly year ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.cor and the Company's website (www.sunilhealthcare.com) These financials results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) prescribed u/s 133 of the companies act, 2013 and other recognise

accounting practises and policies to the extent applicable.

As the Company's business fall within a single primary business segment viz. sale of capsule, the disclosure requirement of Indian Accounting Standard (Ind AS-108) "Operat Segments" prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules issued thereunder, is not applicable. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on November 09, 2023

Anil Khaita Chairman Cum Managing Director DIN 0075995